



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 23—मार्च 1, 2013 (फाल्गुन 4, 1934)

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 23—MARCH 1, 2013 (PHALGUNA 4, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 फरवरी 2013

सं. डीपी/पर्स-1/2013/0019/03/48/2006--श्री आर. राजू ने अधिवर्षिता
की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.12.2012 के अपराह्न से वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक, के.अ. ब्यूरो, के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

अशवनी कुमार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (मु.)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 2013

सं. 2/42/09-प्रशासन/202258--केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक
अभियंता, श्री प्रमोद कुमार भंडारी को आयोग में सहायक तकनीकी परीक्षक
(सिविल) के पद पर वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- में ग्रेड वेतन 4,600/-
में सामान्य शर्तों एवं निबंधन पर दिनांक 01.02.2013 (पूर्वाह्न) से प्रारंभ में

तीन वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए
नियुक्त किया जाता है।

आर.एस. सिन्हा
उप सचिव (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
हैदराबाद-500052, दिनांक 30 जनवरी 2013

सं. 15011/3/2013-स्था.--गृह मंत्रालय के संप्रेषण सं. 1-21015/
30/2012-भा.पु.से. IV दिनांक 21 दिसम्बर, 2012 के अनुरूप दिनांक
18 जनवरी, 2013 पूर्वाह्न से डॉ. अकुन सबरवाल, भा.पु.से. (आ.प्र.-2001)
को स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सहायक निदेशक के पद
पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर चार वर्ष के लिए या अगला आदेश
जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो नियुक्त किया जाता है।

मिलिन्द कानस्कर
प्रभारी निदेशक

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जनवरी 2013

सं. ओ.दो. 5908/2012-डी.ए.-4-कार्मिक--श्री बी.के. सिंह उप कमाण्डेन्ट (इरला-5908) 159 बटालियन, केरिपुबल, को गया जिला के डुमरीया धानान्तर्गत बरहा क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के तहत गोली लगने के कारण इलाज के दौरान ट्रोमा सेन्टर, एम्स, नई दिल्ली में दिनांक 20.11.2012 को निधन हो गया। अतः उक्त अधिकारी का नाम दिनांक 20.11.2012 (अपराह) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 30 जनवरी 2013

सं. ओ.दो. 3923/12-कार्मिक (चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. ओमशिव वामनराव धान्दे, चिकित्सा अधिकारी/सहायक कमाण्डेन्ट (इरला-9307), 208 बटालियन द्वारा दिनांक 15.01.2013 (अपराह) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, उक्त अधिकारी का नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् दिनांक 15.01.2013 (अपराह) से हटया जाता है।

बी. एस. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. डी.एक. 01/12-कार्मिक (एम.ओ.ज.)--डॉ. हरीश सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एस.जी.) (इरला-2984) महानिदेशालय (मेडिकल), केरिपुबल का एन.एस.जी. में स्कॉडन कमाण्डर (चिकित्सा) के पद पर पांच वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के फलस्वरूप उन्हें महानिदेशालय (मेडिकल), से दिनांक 22.01.2013 (अप.) को कार्यमुक्त किया गया। तदनुसार, उक्त अधिकारी की सेवाएं दिनांक 22.01.2013 (अपराह) से महानिदेशक एन.एस.जी. के निपटन पर रहेगी।

बी. एस. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो. 6645/2012-डी.ए.-4.कार्मिक--श्री झूमर राम उप कमाण्डेन्ट (इरला-6645) 210 कोबरा बटालियन, के सरकारी सेवा से त्याग-पत्र नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 30.11.2012 (अपराह) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 30.11.2012 (अपराह) से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 5 फरवरी 2013

सं. ओ.दो. 3399/2011-कार्मिक (डी.ए. 3)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी नोटिस के स्वीकार हो जाने के

फलस्वरूप श्री बीजू लेजर, कमाण्डेन्ट (इरला-3399), ग्रुप केन्द्र, के.रि. पु. बल, पल्लीपुरम (73 बटालियन में स्थानान्तरण आदेश पर) ने दिनांक 01.02.2013 (पूर्वाह) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.02.2013 (पूर्वाह) से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

समन्वय निदेशालय

(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-3, दिनांक 5 फरवरी 2013

सं. ए-17011/01(एन-54)/2012-प्रशा. I--इस निदेशालय के श्री नवीन चन्द्र तिवारी, अतिरिक्त सहायक निदेशक (बीजलेख) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.10.2012 (अपराह) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. सिद्धार्थ
अपर निदेशक

सं. ए-17011/02(डी-76)/2012-प्रशा. I--इस निदेशालय के श्री डी.सी. शर्मा, अतिरिक्त सहायक निदेशक अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.10.2012 (अपराह) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. सिद्धार्थ
अपर निदेशक

महानिदेशालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जनवरी 2013

सं. ई-16015/70/आई.बी./09/कार्मिक-1/30--आसूचना विभाग से मूल विभाग में प्रत्यावर्तन होने पर के.औसुब के निम्नलिखित अधिकारियों को उप महानिरीक्षक पद में पदोन्नति पर उनके नाम के सामने दी गई तारीख से के.औसुब की नफरी में लिया गया है:--

क्र. सं.	नाम	पद	प्रतिनियुक्ति विभाग का नाम	के.औसुब की नफरी में लिए जाने की तारीख व इकाई का नाम
सर्वश्री/श्रीमती				
1.	एस.एस. सरमाह	वरिष्ठ कमाण्डेन्ट	आसूचना विभाग नई दिल्ली	22.01.2013 (पूर्वा.) उ.म.नि. (डीएम), बल मुख्यालय
2.	प्रतिभा अग्रवाल	वरिष्ठ कमाण्डेन्ट	-तथैव-	22.01.2013 (पूर्वा.) उ.म.नि. (कल्याण), बल मुख्यालय

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.औसुब

सं. ई-16015/70/आई.बी./09/कार्मिक-1/31--आसूचना ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति आधार पर तीन साल के लिए नियुक्ति के फलस्वरूप, केऔसुब के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा उनके नाम के सामने दी गई तारीख व इकाई से पदभार छोड़ा तथा आसूचना ब्यूरो में पदभार ग्रहण कर लिया है:--

क्र. सं.	नाम	पद	केऔसुब से पदभार छोड़ने की तिथि व इकाई का नाम	आसूचना विभाग में पदभार ग्रहण करने की तारीख व पद
----------	-----	----	----------------------------------------------	-------------------------------------------------

(सर्वश्री/श्रीमती)

1.	एस.एस. सरमाह	उ.म. नि. (डीएम)	22.01.2013 (अपराह) केऔसुब मुख्यालय, नई दिल्ली	23.01.2013 (पूर्वाह) डी.डी./ई
2.	प्रतिभा अग्रवाल	उ.म. नि. (कल्याण)	22.01.2013 (अपराह) केऔसुब मुख्यालय, नई दिल्ली	23.01.2013 (पूर्वाह) डी.डी./ई

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

दिनांक 28 जनवरी 2013

सं. ई-38015(4)/4/जीएसपी/त्याग-पत्र/2012/कार्मिक. 1/35--राष्ट्रपति, श्री गगनदीप सिंह पुरबा, सहायक कमांडेन्ट (परिवीक्षा)/केऔसुब, 26वां बैच का त्याग-पत्र दिनांक 12.12.2012 (अपराह) से स्वीकार करते हैं।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

सं. ई-38013/04/अ.सू./रा.प.अ./2013/कार्मिक-1/37--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक कमांडेन्ट (लोकल रैंक) तथा निरीक्षकों (अग्नि) को रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के वेतनमान में केऔसुब में सहायक कमांडेन्ट (अग्नि) के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नत करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमांडेन्ट (अग्नि) के रूप में पद ग्रहण की तिथि
----------	-----	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------

(सर्वश्री)

1.	अशोक कुमार झा	एचटीपीपी काशिमपुर	17.12.2012 (पूर्वाह)
2.	ओवीके शास्त्री	ओएनजीसी, देहरादून	26.12.2012 (पूर्वाह)
3.	गौरी नाथ	आरजीपीपी, हिसार	13.12.2012 (अपराह)
4.	अरविन्द कुमार यादव	केटीपीपी, कोडरमा	24.12.2012 (पूर्वाह)
5.	पी. राम बाबू	एसएमपीएल, राजकोट	19.12.2012 (पूर्वाह)
6.	लोकेश चन्द	एनटीपीसी, सिमहाद्री	19.12.2012 (पूर्वाह)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

दिनांक 4 फरवरी 2013

सं. ई-31013(2)/5/2012/कार्मिक-11/218--श्री विनोद कुमार यादव सहायक कमांडेन्ट/कार्यपालक केऔसुब जो वर्तमान में एन.एस.जी. में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को एतद्वारा 'अगले निचले नियम' के तहत वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- के वेतनमान में दिनांक 29.09.2012 (पूर्वाह) से उप कमांडेन्ट/कार्यपालक के पद में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

सं. ई-31013(2)/5/2012/कार्मिक-11/219--श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह सहायक कमांडेन्ट/कार्यपालक केऔसुब जो वर्तमान में एन.एस.जी. में प्रतिनियुक्ति पर हैं, को एतद्वारा 'अगले निचले नियम' के तहत वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- के वेतनमान में दिनांक 29.09.2012 (पूर्वाह) से उप कमांडेन्ट/कार्यपालक के पद में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

दिनांक 6 फरवरी 2013

सं. ई-38013/04/अ.सू./रा.प.अ./2013/कार्मिक-1/50--राष्ट्रपति, केऔसुब के निम्नलिखित वरिष्ठ कमांडेन्टों को रु. 37,400--67,000/- (पीबी-4) + ग्रेड पे रु. 8,900/- के वेतनमान में केऔसुब में उप महानिरीक्षक के पद में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं:--

नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	उप महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
-----	----------------------------------	-------------------------------------------------------

श्री अरूण कुमार आईआईएससी, बरनपुर 24.01.2013 (पूर्वाह)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

सं. ई-38013/04/अ.सू./रा.प.अ./2013/कार्मिक-1/51--राष्ट्रपति निम्नलिखित सहायक कमांडेन्ट/कार्य तथा उप कमांडेन्ट/कार्य (लोकल रैंक) को रु. 15,600--39,100/- (+) ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में केऔसुब में उप कमांडेन्ट/कार्य के रैंक में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से उन्हें इस पद पर पदोन्नत करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर उप कमांडेन्ट/कार्य में पद ग्रहण की तिथि
----------	-----	----------------------------------	--------------------------------------------------------

1 2 3 4

(सर्वश्री)

1.	यतेन्द्र नेगी	आरटीसी, आरकोणम	07.01.2013 (पूर्वाह)
2.	आलोक कुमार	ओएनजीसी, हाजिरा	02.01.2013 (पूर्वाह)

1	2	3	4
3.	चन्दनशिव अमोल सी	एचडीसी, हलदिया	07.01.2013 (पूर्वाह्न)
4.	तुषार डी शाकरें	इनफोसिस, बंगलौर	14.01.2013 (पूर्वाह्न)
5.	बंसीधर सुन्दरा	वीटीपीपी, बैल्लोर	26.12.2012 (पूर्वाह्न)
6.	सुरेश चन्द्र	नौबी आ.वा., देवली	21.12.2012 (अपराह्न)
7.	आई.एस. नबियाल	एचटीपीपी, काशीमपुर	28.09.2012 (पूर्वाह्न)
8.	हरपाल सिंह	तृतीय आ. वा., धिलाई	04.10.2012 (पूर्वाह्न)
9.	ए.के. वर्मा	एमटीपीएस कान्ति, मुजफ्फरपुर	01.10.2012 (पूर्वाह्न)

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सुब

राम गोपाल
अवर सचिव

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2013

सं. 1/6/2006-प्रशा.III/93--भारतीय सांख्यिकी सेवा से संबंधित अधिकारी श्री दीपक रस्तोगी, उप महानिदेशक को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अपर महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

राम गोपाल
अवर सचिव प्रशा.-III

दिनांक 07 फरवरी 2013

सं. 13/22/2007-प्रशा.III/12--राष्ट्रपति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 12015/1/2012-आई.एस.एस. (पार्ट) दिनांक 04.12.2012 के तहत भारतीय सांख्यिकी सेवा (आई.एस.एस.) के श्री मनोज कुमार की पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 7,600/- रु. में वरिष्ठ समयबद्ध वेतनमान (एस.टी.एस.) से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे.ए.जी.) में नियमित आधार पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उन्हें 05.12.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राम गोपाल
अवर सचिव

सं. 13/22/2007-प्रशा.III/14--राष्ट्रपति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 12015/1/2012-आई.एस.एस. (पार्ट) दिनांक 04.12.2012 के तहत भारतीय सांख्यिकी सेवा (आई.एस.एस.) के श्री राज कुमार गौतम की पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 7,600/- रु. में वरिष्ठ समयबद्ध वेतनमान (एस.टी.एस.) से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे.ए.जी.) में नियमित आधार पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उन्हें 05.12.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राम गोपाल
अवर सचिव

सं. 13/22/2007-प्रशा.III/15--राष्ट्रपति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 12016/5(एसटीएस)/2012-आई.एस.एस. दिनांक 28.12.2012 के तहत भारतीय सांख्यिकी सेवा (आई.एस.एस.) के श्री प्रदीप राय की पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. में कनिष्ठ समयबद्ध वेतनमान (जे.टी.एस.) से वरिष्ठ समयबद्ध वेतनमान (एसटीएस) में नियमित आधार पर पदोन्नति के परिणामस्वरूप उन्हें 11.01.2013 (पूर्वाह्न) से तथा अगले आदेश होने तक भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल

कोलकाता-700001, दिनांक 24 दिसम्बर 2012

सं. प्रशा.-I/1034-XXXII/2012-13/1612--महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल के दिनांक 20.12.2012 के आदेशानुसार एस.ए.एस. (सितम्बर 2012) परीक्षा उत्तीर्ण वरिष्ठ लेखाकार श्री फिलिप डांग को सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में, रु. 9,300--34,800/- जोड़ ग्रेड पे रु. 4,800/- के पे बैंड में प्रभावी दिनांक 01.01.2013 (पूर्वाह्न) या इस कार्यालय में सहायक लेखा अधिकारी के संवर्ग में प्रभार लेने के दिनांक, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किया जाता है।

तैनाती आदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

वानलालहुअंगा
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा.)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओड़िशा

भुवनेश्वर, दिनांक 6 फरवरी 2013

सं. प्रशासन-I-भा.ले.वि-ग्रुप 'ख'/1639--दिनांक 30.01.2013 के का.आ.ग. सं. 807 में दी गई पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारियों को उनके नामों के आगे दर्शाए गए तिथि से अर्थात् उनके कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से एवं उनके वरीयतों के बकाया पड़े मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखा अधिकारी (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) पद पर वेतन बैंड (पी.बी. 2) रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	दिनांक
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पट्टनायक	01.02.2013
2.	श्री सदासिब मल्लिक	01.02.2013

यह पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय पर आधारित है।

एस. बी. पाटिल
उप महालेखाकार (प्रशा.)

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, ओड़िशा

पुरी, दिनांक 23 जनवरी 2013

सं. डब्ल्यू.एम.-47-2-डी.ए./डी.ए.ओ.-1500--इस कार्यालय के दिनांक 08.10.2012 के कार्यालय आदेश सं. डब्ल्यू.एम.-118 के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, ओड़िशा, भुवनेश्वर ने श्री रविन्द्रनाथ मलिक, मण्डल लेखाधिकारी श्रेणी-I को वरिष्ठ मण्डल लेखाधिकारी (ग्रुप-ख राजपत्रित) के पद पर वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) जोड़ रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन पर दिनांक 10.10.2012 पूर्वाह्न से उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आगामी आदेश तक सहर्ष स्थानापन्न करने की अनुमति प्रदान करता है।

हस्ता./- अपठनीय
उप महालेखाकार (निर्माण लेखा)

सं. डब्ल्यू.एम.-47-2-डी.ए./डी.ए.ओ.-ई.ओ.-1502--इस कार्यालय के दिनांक 28.12.2012 के कार्यालय आदेश सं. डब्ल्यू.एम.-162 के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, ओड़िशा, भुवनेश्वर ने श्री नितीश, मण्डल लेखाधिकारी श्रेणी-II को मण्डल लेखाधिकारी श्रेणी-I (ग्रुप-ख राजपत्रित) के पद पर वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) जोड़ रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन पर दिनांक 01.01.2013 पूर्वाह्न से उनके वरिष्ठों के दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आगामी आदेश तक सहर्ष स्थानापन्न करने की अनुमति प्रदान करता है।

हस्ता./- अपठनीय
उप महालेखाकार (निर्माण लेखा)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 5 फरवरी 2013

सं. ए-19011/499/2011-स्था-एपीपी/45--श्री सी. जी. सुम्भा, उप खनिज अर्थशास्त्री, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.12.2012 (अपराह्न) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

हस्ता./- अपठनीय
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

सं. 22392/एसपी/ए-32013/2-वरिष्ठ भूभौतिकी/2011-12/19बी--राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित भूभौतिकीविदों को इसी विभाग में वरिष्ठ भूभौतिकीविद् के पद पर पदोन्नति पर रु. 6,600/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 : के रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान में अस्थायी आधार पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वरिष्ठ भूभौतिकीविद् के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री गौतम कुमार दत्ता	07.05.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री वेमुरी रामा मूर्ति	01.05.2012 (अपराह्न)
3.	डॉ. बिजय कृष्णा नंदी	01.05.2012 (अपराह्न)
4.	डॉ. ओम प्रकाश मिश्रा	01.05.2012 (अपराह्न)
5.	श्री गौतम कुमार चक्रवर्ती	01.05.2012 (अपराह्न)
6.	श्री पाबोलु रामचंद्र राव	01.05.2012 (अपराह्न)
7.	श्री राधे श्याम	01.05.2012 (अपराह्न)

सी. मुरलीधरन
निदेशक (कार्मिक)
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

सं. 22393/एसपी/ए-32013/प्र.अ. श्रेणी-I/वि.प.सं/2012-13/19ए--राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित प्रशासन अधिकारियों श्रेणी-II (समूह-'ख' राजपत्रित) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को प्रशासन अधिकारी श्रेणी-I (समूह-'क' राजपत्रित) के पद पर पदोन्नति पर इसी विभाग में रु. 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर स्थायी आधार पर उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री धुर्जटी मुखर्जी	05.07.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री तडित रंजन दास	31.08.2012 (अपराह्न)
3.	श्रीमती सबिता अड्डा	03.09.2012 (पूर्वाह्न)

एच. एम. मिश्रा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

सं. 22394/एसपी/ए-32013/प्र.अ. श्रेणी-II/वि.प.सं/2011-12/19ए--
महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित अधीक्षक (श्रेणी-'ख' अराजपत्रित), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को प्रशासन अधिकारी श्रेणी-II (श्रेणी-'ख' राजपत्रित) के पद पर, पदोन्नति पर इसी विभाग में रु. 4,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर स्थानापन्न रूप में उनके नाम के समक्ष दर्शाए तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
श्री प्राण गोपाल विश्वास	10.10.2012 (पूर्वाह्न)

पी. एम. चंद्रशेखर
प्रशासन अधिकारी श्रेणी-II
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 27 जुलाई 2012

सं. 964/एसपी/ए-32013/3-अधी. रसायन/2012/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित वरिष्ठ रसायनज्ञों को अधीक्षण रसायनज्ञ के पद पर, पदोन्नति पर इसी विभाग में तथा नियमानुसार वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन रु. 7,600/- रु. के साथ रु. 15,600--39,100/- के वेतन पर नियमित आधार पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	अधीक्षण रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री डी. पी. अग्निहोत्री	21.06.2012 (अपराह्न)
2.	डॉ. डी. जी. मराठे	25.06.2012 (पूर्वाह्न)

के. ए. इब्राहिम कुंजू
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 7 सितम्बर 2012

सं. 966/एसपी/ए-32013/3-सहा. रसायनज्ञ/99/19बी--महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायकों (रसायनिक) को सहायक रसायनज्ञ श्रेणी-I के पद पर पदोन्नति पर इसी विभाग में रु. 4,800/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	सहायक रसायनज्ञ समूह-I के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री राजेंद्र कुमार गुप्ता	24.05.2012 (अपराह्न)
2.	श्री अविजीत कुमार चैटर्जी	25.05.2012 (पूर्वाह्न)
3.	श्री मोहर सिंह	24.05.2012 (अपराह्न)

के. ए. इब्राहिम कुंजू
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 1 जनवरी 2013

सं. 5/एसपी/ए-32013/वरिष्ठ भूभौतिकीविद्/2011-12/19बी--राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित भूभौतिकीविदों को इसी विभाग में वरिष्ठ भूभौतिकीविद् के पद पर पदोन्नति पर रु. 6,600/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3, के रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वरिष्ठ भूभौतिकीविद् के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री संत लाल सिंह	01.05.2012 (अपराह्न)
2.	श्री बी. एन. रामामूर्ति	01.05.2012 (अपराह्न)

वरिष्ठ भूभौतिकीविद् के पद पर उनका वेतन मूलभूत नियम-22 (1) (a) (1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।

के. ए. इब्राहिम कुंजू
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 6/एसपी/ए-32013/वरि. भूभौतिकी/2011-12/19बी--राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित भूभौतिकीविदों को इसी विभाग में वरिष्ठ भूभौतिकीविद् के पद पर पदोन्नति पर रु. 6,600/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3, के रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

नाम	वरिष्ठ भूभौतिकीविद् के पद पर पदोन्नति की तिथि
श्री बी. बालकृष्ण	09.05.2012 (पूर्वाह्न)

वरिष्ठ भूभौतिकीविद् के पद पर उनका वेतन मूलभूत नियम-22 (1) (a) (1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। वेतन निर्धारण

के विकल्प का प्रयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।

के. ए. इब्राहिम कुंजू
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 7 फरवरी 2013

सं. 7/एसपी/ए-32013/वरि. भूभौतिकीविद्/2011-12/19बी--
राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित भूभौतिकीविदों को इसी विभाग में वरिष्ठ भूभौतिकीविद् के पद पर पदोन्नति पर रु. 6,600/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3, के रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	वरिष्ठ भूभौतिकीविद् के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री के. वी. सत्यनारायण	07.05.2012 (पूर्वाह)
2.	श्री एस. एम. स्यीम	25.05.2012 (अपराह)
3.	श्री डी. लिविंगस्टोन	28.05.2012 (पूर्वाह)

वरिष्ठ भूभौतिकीविद् के पद पर उनका वेतन मूलभूत नियम-22 (I) (a) (1) के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।

के. ए. इब्राहिम कुंजू
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

दिनांक 6 फरवरी 2013

सं. 952/एसपी/ए-32013/रसायन धारा/वी.आर./2012/19बी--वेतन बैंड-2 में ग्रेड वेतन रु. 4,800/- के साथ रु. 9,300--34,800/- के वेतनमान में सुश्री वी. एस. स्नेहलता, सहायक रसायनज्ञ श्रेणी-I, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्य इकाई-केरल, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तिरुवनन्तपुरम ने सी.सी.एस. पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 48ए (1) के अंतर्गत सरकारी सेवा से सहायक रसायनज्ञ श्रेणी-I के पद का कार्यभार 16.06.2012 (पूर्वाह) से प्रभावित स्वैच्छिक निवृत्ति पर छोड़ दिया है।

के. ए. इब्राहिम कुंजू
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 958/एसपी/ए-32014(2-ओएस)/2005-09/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर महानिदेशक, भा. भू. स, निम्नलिखित वरिष्ठ तकनीकी सहायकों (सर्वेक्षण), को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अधिकारी सर्वेक्षक के रूप में पदोन्नति पर रु. 4,600/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-2 में रु. 9,300--34,800/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर प्रत्येक के समक्ष यथा दर्शायी गयी तिथि से प्रभावित नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री रामी नाथ	07.08.2012 (अपराह)
2.	श्री एम.वी.एस. रामा शास्त्री	14.08.2012 (अपराह)
3.	श्री तपन डेका	27.08.2012 (अपराह)
4.	श्री एन.एन.वी. शेषागिरी राव	29.08.2012 (पूर्वाह)
5.	श्री आर. पी. कुमावत	03.10.2012 (पूर्वाह)

के. ए. इब्राहिम कुंजू
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 959/एसपी/ए-32013/5-यांत्रि.अभि. (कनि.)/2011/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित सहायक यांत्रिक अभियंता श्रेणी-I को यांत्रिक अभियंता (कनिष्ठ) के पद पर पदोन्नति पर, इसी विभाग में नियमानुसार वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन रु. 5,400/- के साथ रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान पर पदोन्नति पर, नियमित आधार पर उनके सामने उल्लेखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

नाम	यांत्रिक अभियंता कनिष्ठ के पद पर पदोन्नति की तिथि
श्री जी. सांबा शिव राव	18.09.2012 (पूर्वाह)

के. ए. इब्राहिम कुंजू
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 8 फरवरी 2013

सं. 1069/एसपी/ए-32013/3-अधी. रसायनज्ञ/2012/19बी--विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंशा पर राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित वरिष्ठ रसायनज्ञों को अधीक्षण रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नति पर इसी विभाग में तथा नियमानुसार वेतन बैंड-3 में ग्रेड वेतन रु. 7,600/- के साथ रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान पर नियमित आधार पर

प्रत्येक के सामने उल्लेखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	अधीक्षण रसायनज्ञ के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री के. के. नारंग	21.06.2012 (अपराह)
2.	श्री बाबलु नस्कर	16.07.2012 (पूर्वाह)

एम. सी. साहा
रसायनज्ञ एवं
नोडल अधिकारी (रसायन धारा)
कृते महानिदेशक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
(महासर्वेक्षक का कार्यालय)

देहरादून-248001, दिनांक 1 फरवरी 2013

सं. सी-07/1800 (1)--निम्नलिखित मानचित्रकार डिवीजन-1 (ग्रुप 'सी') की भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गयी तिथि से नियमित आधार पर मुख्य मानचित्रकार ग्रुप 'बी' (राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय) के पद पर पी. बी.-2 में रुपये 9,300--34,800/- + ग्रेड पे रुपये 4,600/- में पदोन्नति की जाती है:--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री करुणाकर मण्डल	25.10.2012
2.	श्री राजेश्वर सिंह साम्याल	01.10.2012
3.	श्री रासबिहारी बेहरा	02.01.2013
4.	श्री जे. के. पी. मंगमई	24.09.2012
5.	श्रीमती अलका रथ	25.09.2012
6.	श्री एन. के. वर्मा (अनु. जाति)	01.10.2012
7.	श्रीमती प्रतिभा सरकार (अनु. जाति)	11.01.2013
8.	श्रीमती जी. वी. लक्ष्मी (अनु. जाति)	11.01.2013
9.	श्री कन्हैया लाल (अनु. जाति)	15.01.2013
10.	श्री एन. सी. घोष (पी. एच.)	14.01.2013

स्वर्ण सुब्बा राव
भारत के महासर्वेक्षक

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद-121001, दिनांक 17 जनवरी 2013

सं. ए.-19024/01/2012-प्र.-I--विभागीय पदोन्नति समिति (समूह-ख) की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से,

श्री सत्य प्रकाश शर्मा गौड़ को वेतन बैंड-2 (9,300--34,800/- रु.) + ग्रेड पे 4,200/- रु. में वरिष्ठ रसायनज्ञ के रूप में 07 जनवरी, 2013 (पूर्वाह) से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नई दिल्ली में नियुक्त किया जाता है।

एम. एल. सिक्का
अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय

कोलकाता-700107, दिनांक 1 फरवरी 2013

सं. 26 (03)/82-स्था.-I--भारतीय सांख्यिकीय सेवा (भा.सां.से.) के अधीन श्री समीर दत्ता, सहायक निदेशक ने निर्वतन की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31.01.2013 अपराह से सरकारी सेवा से अवकाश ग्रहण कर लिया है।

सत्येन लामा
उप निदेशक
कार्यालय प्रमुख

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 28 जनवरी 2013

संदर्भ: पीडी/6(1)/2012-भर्ती-III/2013/1288--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती शशी श्रीधर, सहायक, भापअ केन्द्र, मुंबई, को दिनांक 28.12.2012 (पूर्वाह) से, आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में भापअ केन्द्र सुविधाएं, कल्पाक्कम में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. 6(2457)/2007-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में वर्तमान में विशेष कार्य अधिकारी का पद धारण कर रहे (पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 01 जनवरी 2013 के पूर्वाह से प्रभावी रूप में तीन वर्ष की अवधि हेतु उसी विभाग में "अवर सचिव" (पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

- (1) श्री एस. श्रीराम
- (2) श्री के. स्वामीनाथन
- (3) श्री एन. वी. एस. वी. प्रसाद

स्वाति पाण्डेय
निदेशक (प्रशासन)

मुंबई-400001, दिनांक 5 फरवरी 2013

सं. 6(2284)/99-प्रशा./1770--राष्ट्रपति, श्री एस. के. मल्होत्रा, वैज्ञानिक अधिकारी/एच (पीबी-4: रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-), अध्यक्ष, जन जागरूकता प्रभाग, पऊवि, मुंबई को दिनांक 20.12.2012 के पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में उसी विभाग में उत्कृष्ट वैज्ञानिक (एचएजी स्केल रु. 67,000/- (वार्षिक वेतन वृद्धि @3% 79,000/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. वी. एस. वी. प्रसाद
अवर सचिव

परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र

कोलकाता-700064, दिनांक 1 फरवरी 2013

सं. वीईसीसी/पदोन्नति (जुलाई)/2012/242--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी को इसी केन्द्र पर वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 10,000/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (एच) के पद पर कार्य करने के लिए दिसम्बर 20, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन
डॉ. तपन कुमार नायक	वैज्ञानिक अधिकारी (जी)	रु. 37,400--67,000/- (पीबी-4) + रु. 8,900/-

ए. बनर्जी
प्रशासनिक अधिकारी-III

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 6 फरवरी 2013

सं. आरआरकेट/प्रशा./भ-708/168--राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 01 अगस्त 2012 की पूर्वाह्न से वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर वेतनबैंड: 3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया है :-

क्रं. सं.	सं. सं.	नाम
1	2	3
1	1909	श्री शौभिक चक्रवर्ती
2	1910	श्री तीर्थ मंडल
3	1911	श्री चन्द्रशेखर घोष
4	1912	श्री अभिषेक चटर्जी
5	1913	कु. सुष्मिता भारतीय

1	2	3
6	1914	श्री रितु राज भाटी
7	1915	श्री मुकेश कुमार पाल
8	1916	श्री जितेन्द्र सिंह
9	1917	कु. पूजा पठेजा

बी. के. जेना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड)

नवी मुंबई-400703, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

सं. ब्रिट/09/17(3)/जुलाई/2012/172--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'ई' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 01 जुलाई 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपए 37,400--67,000/- के वेतन बैंड में रु. 8,700/- ग्रेड वेतन सहित, वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ', के रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्रं. सं.	नाम
1	श्री गंटी प्रभाकर
2	डॉ. विजय भानू कडवाड
3	डॉ. मेल्यू कुडिलिल मत्ताई
4	श्री मुकुलतुंडिल कुंजाप्पि मामाचन
5	श्री रणजीत सिंह
6	श्री अर्जुन गोपालकृष्ण

महासेन गंडले
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. ब्रिट/09/17(3)/जुलाई/2012/173--राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'ई' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 03 जुलाई 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपए 37,400--67,000/- के वेतन बैंड में रु. 8,700/- ग्रेड वेतन सहित, वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एफ', के रूप में नियुक्त करते हैं :-

श्री नित्यानंद पाल

महासेन गंडले
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 22 जनवरी 2013

सं. इंगांपअकॉ/ए-11013/2013-भर्ती--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अधिकारियों को परमाणु ऊर्जा विभाग के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कल्पाक्कम में तकनीकी अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड 'सी' के पद पर रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड तथा रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन में आरंभिक वेतन रु. 21,000/- पर उनके नाम के सामने दर्शाए गए दिनांक के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं :-

क्रं. सं.	प.प.सं./अनुभाग	नाम	जन्म तिथि	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	मूल वेतन + ग्रेड वेतन
(सर्वश्री/श्रीमती/कु.)					
1.	10583 एसईएस/ईआईआरएसजी	टी. सतीशकुमार	05.03.1990	26.11.2012	रु. 21,000/-
2.	10585 सीएफडी/सीजी	जे. जगदीशचंद्रन	13.07.1989	10.12.2012	रु. 21,000/-
3.	10586 एमटीडी/एमडीटीजी/एमएमजी	एम. अरविंद दाविंची	01.07.1981	17.12.2012	रु. 21,000/-
4.	10595 आईएमएस/आरएमडी/आरओएमजी	डी. गौतम	21.12.1989	09.01.2013	रु. 21,000/-

ओ. के. सत्यन्
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

महानिदेशक, नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 6 फरवरी 2013

सं. ए-32013/5/2011-स्था.-2--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों तथा मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति की सहमति के आधार पर, राष्ट्रपति महोदय, महानिदेशक, नागर विमानन कार्यालय के श्री वी. के. अरोरा, उप महानिदेशक, को पीबी-4 रुपये 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन 10,000/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 21.01.2013 (पूर्वाह्न) से संयुक्त महानिदेशक के पद पर पदोन्नति करते हैं।

जे. मिंज
उप निदेशक (प्रशा.)
कृते नागर विमानन महानिदेशक

जल संसाधन मंत्रालय

(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

फरीदाबाद-121001, दिनांक 7 फरवरी 2013

सं. 3-1754/2012-वैज्ञा. स्था./982--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश के आधार पर व सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के अनुसार श्री दिनेश कुमार थांगवेल को वेतन बैंड-2, रुपये 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपये प्रति माह एवं सामान्य भर्तों के वेतनमान पर सहायक रसायनज्ञ के पद पर अस्थाई आधार पर दिनांक 28.12.2012 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, मध्य क्षेत्र, नागपुर में पदस्थापित किया जाता है।

वह कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे जिसे सक्षम अधिकारी के स्वैच्छा निर्णय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी की सहमति से जारी किया जा रहा है।

एस. आर. चौहान
प्रशासनिक अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में
चंडीगढ़, दिनांक 31 जनवरी 2013

सं. आर.ओ.सी./560(5)/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	32332	मैसर्स अपोलो इन्टीग्रेटेड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
2.	30454	मैसर्स ग्लोबल बल्यूबैरिज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	23470	मैसर्स जैन तपोधनी शर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	26907	मैसर्स यूवी सौफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड
5.	21542	मैसर्स कौड मैडिकल सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	09480	मैसर्स सिंडिकेट डिपोजिट्स एण्ड एडवान्सेस प्राईवेट लिमिटेड
7.	31202	मैसर्स परमात्मा होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	27664	मैसर्स धन्ना सिंह एण्ड सन्स फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	12842	मैसर्स कालब्रो ज़रस एण्ड कैमिकल मैनुफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	31149	मैसर्स ओवरसीज़ इम्मीग्रेशन एण्ड प्रिंटिंग सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	11587	मैसर्स कल्याणी फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	29313	मैसर्स ब्रिटेन इम्मीग्रेशन कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	25796	मैसर्स एस. टी. एस. फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	34823	मैसर्स वाहीद सन्धर शुगर (फगवाड़ा) लिमिटेड
15.	33420	मैसर्स ऐ. बी. एजु कन्सल्टेंट्स लिमिटेड
16.	30871	मैसर्स शैलडन ट्रेवल्स लिमिटेड
17.	32504	मैसर्स ओरचिड स्पेस मेकर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	33400	मैसर्स वेदन्ता स्टडी एबरोड कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	31480	मैसर्स बिग बैंड कॉफी हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
20.	32508	मैसर्स निम्बुस औरगैनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	27780	मैसर्स गोलडन पैसेफिक कम्प्युटर्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	30758	मैसर्स अमरटैक्स इन्टीग्रेटेड टैक्सटायल पार्क लिमिटेड
23.	18384	मैसर्स गोलडेज फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	32231	मैसर्स इपिंज सोल्युशन्स लिमिटेड
25.	29061	मैसर्स लीला नैटमार्ट प्राईवेट लिमिटेड

राज सिंह
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 5 जनवरी 2013

सं. आर.ओ.सी./560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	15-005534	मैसर्स शिवा रीयलकॉन प्राईवेट लिमिटेड
2.	15-008169	मैसर्स नन्दिनी सॉफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड

वेणुधर
कम्पनी रजिस्ट्रार
एवं शासकीय समापक

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स नेल्लुरू स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 1 फरवरी 2013

सं. 560 (3) के अंतर्गत एम.सी.ए./आर.ओ.सी.-हैदराबाद/धारा 560/2013/00247/सहायक क.प.(पी.र)/क.हि.ट./2013--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स नेल्लुरू स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पोला रघुनाथ
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 7th February 2013

No. DP/Pers.I/2013/0019/03/48/2006—Shri R. Raju relinquished charge of the post of Senior Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.12.2012 on attaining the age of superannuation.

ASHWANI KUMAR
Sr. Supdt. of Police (HQ)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 6th February 2013

No. 2/42/09-Admn.(Pt.)-202258—Shri Pramod Kumar Bhandari, Assistant Engineer of CPWD is hereby appointed as Assistant Technical Examiner (Civil), in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- and Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. the forenoon of 01.02.2013, on usual terms and conditions, initially for a period of three years or till further order, whichever is earlier.

R. S. SINHA
Dy. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

Hyderabad-500052, the 30th January 2013

No. 15011/3/2013-Estt.—In pursuance of communication No. I-21015/30/2012-IPS-IV dated 21.12.2012 of MHA, Dr. Akun Sabharwal, IPS (AP:2001) is appointed as Assistant Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad with effect from the forenoon of 18th January, 2013 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation.

MILIND KANASKAR
I/c Director

DIRECTORATE GENERAL, CRPF

New Delhi-110003, the 24th January 2013

No. O.II-5908/2012-DA-4-Pers—Shri B. K. Singh, Dy. Commandant (IRLA-5908) of 159 Bn., expired on 20.11.2012 while undergoing treatment at Trauma Centre, AIIMS, New Delhi due to bullet injury sustained in an encounter took place at Village-Barha, Distt.: Gaya, Bihar. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 20.11.2012 (AN).

B. S. CHAUHAN
DIG (Pers)

The 30th January 2013

No. O.II.3923/12-Pers-MOs—Consequent on acceptance of his resignation by the Competent Authority, Dr. Omshio Wamanrao Dhande, (IRLA-9307), Medical Officer/Assistant Commandant, 208 Bn., CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 15.01.2013. Accordingly his name stands deleted from the rolls of the Force w.e.f. 15.01.2013 (AN).

B. S. CHAUHAN
DIG (Pers)

No. O.I.01/13-Pers-MOs—Consequent on his selection as Squadron Commander (Medical), in NSG for a period of five years on deputation, Dr. Harish Singh, CMO(SG) of Medical Dte., CRPF (IRLA:2984) has been relieved from Medical Dte., CRPF w.e.f. 22.01.2013 (AN). Accordingly, he is placed at the disposal of Director General, NSG w.e.f. the same date i.e. 22.01.2013 (AN).

B. S. CHAUHAN
DIG (Pers)

No. O.II.6645/2012-DA-4-Pers—Consequent on acceptance of his notice of resignation from Government Service by the Competent Authority, Shri Jhumar Ram, Dy. Commandant (IRLA-6645), of 210 CoBRA Bn., has relinquished his post on 30.11.2012 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 30.11.2012 (AN).

B. S. CHAUHAN
DIG (Pers)

The 5th February 2013

No. O.II-3399/2013-Pers-DA-3—Consequent on acceptance of his Voluntary Retirement from Govt. Service by the Competent Authority, Shri Biju Lazer, Commandant (IRLA-3399) of GC CRPF Pallipuram (under order of transfer to 73 Bn.) relinquished the charge of his post on the forenoon of 1st Feb' 2013. Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force w.e.f. 01.02.2013 (FN).

B. S. CHAUHAN
DIG (Pers)

DIRECTORATE OF COORDINATION
(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 5th February 2013

No. A-17011/01 (N-54)/2012-Admn.I—Shri Navin Chandra Tiwari, Extra Assistant Director (Cy) of this Directorate has retired from Government Service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31.10.2012.

R. K. SIDDHARTHA
Addl. Dir.

No. A-17011/02 (D-76)/2012-Admn.I—Shri D. C. Sharma, Extra Assistant Director of this Directorate has retired from Government Service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31.10.2012.

R. K. SIDDHARTHA
Addl. Dir.

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 24th January 2013

No. E-16015/70/IB/09/Pers-I/30—Consequent upon repatriation from deputation, the following officers have assumed the charge of Deputy Inspector General on promotion and taken on the strength of CISF HQrs./Unit with effect from the dates as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Rank	Name of the Department where officer was on deputation	The officer taken on the strength of CISF HQrs./Unit
	(Shri/Smt./Kum.)			
1.	S.S. Sarmah	Sr. Comdt.	IB, New Delhi	DIG/DM, CISF HQ, New Delhi 22.01.2013 (FN)
2.	Pratibha Agarwal	Sr. Comdt.	IB, New Delhi	DIG/Welfare, CISF HQ, New Delhi 22.01.2013 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Genl./CISF

No. E-16015/70/IB/09/Pers-I/31—Consequent upon appointment of following CISF officers in Intelligence Bureau (Ministry of Home Affairs), on deputation basis, for a period of three years, they have relinquished the charge from CISF and assumed the charge of the posts at Intelligence Bureau from the date/post as mentioned against their names :—

Sl. No.	Name	Rank	Date & Unit from where charge relinquished	Date of assumption of charge in IB/ Rank
	(Shri/Smt./Kum.)			
1.	S.S. Sarmah	DIG	DIG/DM, CISF HQ, New Delhi 22.01.2013 (AN)	23.01.2013 (FN) as D.D/E
2.	Pratibha Agarwal	DIG	DIG/Welfare, CISF HQ, New Delhi 22.01.2013 (AN)	23.01.2013 (FN) as D.D/E

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Genl./CISF

The 28th January 2013

No. E-38015(4)/4/GSP/Resig/2012/Pers.I/35—The President is pleased to accept the resignation of Shri Gagandeep Singh Purba, Assistant Commandant (Probationer) of CISF, 26th Batch, with effect from 12.12.2012 (AN).

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Genl./CISF

No. E-38013/04/Noti./GOs/2013/Pers-I/37—The President is pleased to appoint the following AC/Fire (LR) and Inspectors (Fire) on regular promotion to the rank of Assistant Commandant (Fire), in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (+) Grade Pay of Rs. 5,400/- in CISF with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as AC (Fire) on regular basis
	(Shri/Smt./Kum.)		
1.	Ashok Kumar Jha	HTPP, Kasimpur	17.12.2012 (FN)
2.	O. V. K. Sastry	ONGC, Dehradun	26.12.2012 (FN)
3.	Gauri Nath	RGTPP, Hissar	13.12.2012 (AN)
4.	Arvind Kumar Yadav	KTPP, Koderma	24.12.2012 (FN)
5.	P. Ram Babu	SMPL, Rajkot	19.12.2012 (FN)
6.	Lokesh Chand	NTPC, Simhadri	19.12.2012 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Genl./CISF

The 4th February 2013

No. E-31013(1)5/Pers.II/2012/218—Shri Vinod Kumar Yadav, Assistant Commandant of CISF who is presently on deputation to Special Protection Group, is hereby granted proforma promotion under 'Next Below Rule' to the rank of Deputy Commandant in CISF in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- (revised) with effect from 29.09.2012 (FN).

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Genl./CISF

No. E-31013(1)5/Pers.II/2012/219—Shri Sailendra Pratap Singh, Assistant Commandant of CISF who is presently on deputation to Special Protection Group, is hereby granted proforma promotion under 'Next Below Rule' to the rank of Deputy Commandant in CISF in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- (revised) with effect from 29.09.2012 (FN).

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Genl./CISF

The 6th February 2013

No. E-38013/04/Noti/GOs/2013/Pers-1/50—The President is pleased to appoint the following Senior Commandants on regular promotion to the rank of Deputy Inspector General in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) (+) Grade Pay of Rs. 8,900/- on regular basis in CISF with effect from the date mentioned therein :—

Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Dy. Inspector General on regular basis
Shri Arun Kumar	IISCO, Buranpur	24.01.2013 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Genl./CISF

No. E-38013/04/Noti/GOs/2013/Pers-1/51—The President is pleased to appoint the following Assistant Commandants (Exe) and Deputy Commandants (Exe) (Local Rank) on regular promotion to the rank of Deputy Commandant (Exe) in the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- (+) Grade Pay of Rs. 6,600/- in CISF with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Dy. Inspector General on regular basis
	(S/Shri)		
1.	Yatendra Negi	RTC, Arakkonam	07.01.2013 (FN)
2.	Alok Kumar	ONGC, Hazira	02.01.2013 (FN)
3.	Chandanshive Amol C.	HDC, Haldia	07.01.2013 (FN)
4.	Tushar D. Sakhare	Infosys, Bangalore	14.01.2013 (FN)
5.	Banshidhar Sundara	VTPP, Vallur	26.12.2012 (FN)
6.	Suresh Chander	9th Res Bn., Deoli	21.12.2012 (AN)
7.	I. S. Nabiyaal	HTPP, Kashimpur	28.09.2012 (AN)
8.	Harpal Singh	3rd Res Bn., Bhilai	04.10.2012 (FN)
9.	A. K. Verma	MTPS Kanti, Muzaffarpur	01.10.2012 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Genl./CISF

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

New Delhi, the 23rd January 2013

No. 1/6/2006-Ad.III/93—Shri Deepak Rastogi, Deputy Director General an officer belonging to Indian Statistical Service is appointed as Additional Registrar General in the office of Registrar General, India with immediate effect, until further orders.

RAM GOPAL
Under Secy. (Admn. III)

The 7th February 2013

No. 13/22/2007-Ad-III—Consequent upon his promotion from Senior Time Scale (STS) to the Junior Administrative Grade (JAG) on regular basis in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + GP of Rs. 7,600/-, vide Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No. 12015/1/2012-ISS (Pt.) dated 04.12.2012, the President is pleased to appoint Sh. Manoj Kumar of the Indian Statistical Service (ISS) as Joint Director in the Office of the Registrar General, India with effect from the forenoon of 05.12.2012 and until further orders.

RAM GOPAL
Under Secy.

No. 13/22/2007-Ad-III—Consequent upon his promotion from Senior Time Scale (STS) to the Junior Administrative Grade (JAG) on regular basis in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + GP of Rs. 7,600/-, vide Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No. 12015/1/2012-ISS (Pt.) dated 04.12.2012, the President is pleased to appoint Sh. Raj Kumar Gautam of the Indian Statistical Service (ISS) as Joint Director in the Office of the Registrar General, India with effect from the forenoon of 05.12.2012 and until further orders.

RAM GOPAL
Under Secy.

No. 13/22/2007-Ad-III/76—Consequent upon his promotion from Junior Time Scale (JTS) to the Senior Time Scale (STS) on regular basis in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + GP of Rs. 6,600/-, vide Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No. 12016/5 (STS)/2012-ISS dated 28.12.2012, the President is pleased to appoint Sh. Pradip Ray of the Indian Statistical Service (ISS) as Senior Research Officer in the Office of the Registrar General, India with effect from the forenoon of 11.01.2013 (FN) and until further orders.

RAM GOPAL
Under Secy.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Kolkata-700001, the 24th December 2012

No. Admn.I/1034-XXXII/2012-13/1612—Under kind orders of the Accountant General (A&E), West Bengal dated 20.12.2012 Shri Philip Dang, S.A.S. (September, 2012) Examination passed Sr. Accountant is promoted to the cadre of Assistant Accounts Officer in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 01.01.2013 (FN) or the date of taking over charge in the

cadre of Assistant Accounts Officer in this office, whichever is later.

Posting order will be issued separately.

J. R. BISWAS
Sr. Dy. Accountant Genl. (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), ODISHA

Bhubaneswar-1, the 5th February 2013

No. Admn-I-IAD-Gr. 'B'-1639—Consequent on their acceptance of offer of promotion vide this office OOC No. 807 dated 30.01.2013, the Principal Accountant General has been pleased to allow the following Assistant Accounts Officers to officiate as Accounts Officers (Gr. 'B'-Gazetted) in the Pay Band (PB-2) of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from the date of taking over charge i.e. 01.02.2013 (FN) without prejudice to the claim of their seniors :—

Sl. No.	Name
1.	Shri Rajendra Prasad Patnaik
2.	Shri Sadasiba Mallik

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/CAT, if any.

S. B. PATIL
Dy. Accountant Genl. (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (A&E), ODISHA

Puri, the 23rd January 2013

No. WM-47-2-DA/DAO-1500—Pursuant to this office O.O. No. WM-118, dt. 08.10.2012, the Principal Accountant General (A&E), Odisha, Bhubaneswar has been pleased to allow Shri Rabindranath Mallick, Divisional Accounts Officer Grade-I to officiate as Senior Divisional Accounts Officer (Group-B Gazetted) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 10.10.2012 F.N. without prejudice to the claims of his seniors until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant Genl. (Works A/cs.)

No. WM-47-2-DA/DAO-EO-1502—Pursuant to this office O.O. No. WM-162, dt. 28.12.2012, the Principal Accountant General (A&E), Odisha, Bhubaneswar has been pleased to allow Sri Nitish, Divisional Accounts Officer Grade-II to officiate as Divisional Accounts Officer Grade-I (Group-B Gazetted) in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) plus Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from 01.01.2013 F.N. without prejudice to the claims of his seniors until further orders.

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant Genl. (Works A/cs.)

MINISTRY OF MINES

(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 5th February 2013

No. A-19011/364/2011-Estt. App/45—Shri C. G. Sumbha, Deputy Mineral Economist, Indian Bureau of Mines, Nagpur has relinquished charge on the afternoon of 31.12.2012 on attaining the age of superannuation.

Sd/- ILLEGIBLE
Asstt. Admin. Officer

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 26th June 2012

No. 22392/Sp/A-32013-Sr. Geophy./2011-12/19B—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Geophysicists on promotion to the post of Senior Geophysicist in the same Department and on pay according to rules in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the date mentioned against each, on regular basis, until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of promotion to the post of Senior Geophysicist
1.	Shri Gautam Kumar Dutta	07.05.2012 (FN)
2.	Shri Vemuri Rama Murty	01.05.2012 (AN)
3.	Dr. Bijay Krishna Nandi	01.05.2012 (AN)
4.	Dr. Om Prakash Mishra	01.05.2012 (AN)
5.	Shri Gautam Kr. Chakraborty	01.05.2012 (AN)
6.	Shri Pabolu Ramachandra Rao	01.05.2012 (AN)
7.	Shri Radhe Shyam	01.05.2012 (AN)

C. MURALEEDHARAN
Dir. (P)
for Dir. Genl.

Kolkata-700016, the 14th September 2012

No. 22393/Sp/A-32013/A.O. Gr-I/DPC/2012-13/19A—On recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Administrative Officer Gr-II (Gr-'B', Gazetted) Geological Survey of India to the post of Administrative Officer Gr-I (Group 'A' Gazetted) on promotion on regular basis on pay according to rules in the Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the same department with effect from the date as shown below against them, until further orders :—

Sl.No.	Name	Date of joining
1.	Shri Dhurjati Mukherjee	05.07.2012 (FN)
2.	Shri Tarit Ranjan Das	31.08.2012 (AN)
3.	Smt. Sabita Addy	03.09.2012 (FN)

H. M. MISHRA
Sr. Admin. Officer
for Dir. Genl.

Kolkata-700016, the 7th November 2012

No. 22394/Sp/A-32013/A.O. Gr-II/DPC/2011-12/19A—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint the following Superintendent (Gr-'B', Non-Gazetted) Geological Survey of India to the post of Administrative Officer Gr-II (Group 'B', Gazetted) on promotion in the same Department on pay according to rules in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,600/- in an officiating capacity with effect from the date as shown below against him, until further orders :—

Name	Date of joining
Shri Pran Gopal Biswas	10.10.2012 (FN)

P. M. CHANDRASEKHAR
Admin. Officer Gr-II
for Dir. Genl.

Kolkata-700016, the 27th July 2012

No. 964/Sp/A-32013/3-Suptd. Chemist/2012/19B—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Senior Chemists on promotion to the post of Superintending Chemists in the same Department and on pay according to rules in the PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the date mentioned against each, on regular basis, until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of promotion to the post of Superintending Chemist
1.	Shri D. P. Agnihotri	21.06.2012 (A/N)
2.	Dr. D. G. Marathe	25.06.2012 (F/N)

K. A. EBRAHIM KUNJU
Sr. Admin. Officer
for Dir. Genl.

The 7th September 2012

No. 966/Sp/A-32013/3-Asstt. Chemist/99/19B—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Director General, Geological Survey of India is pleased to appoint the following Senior Technical Assistants (Chemical) on promotion to the post of Assistant Chemist Gr.-I in the same Department and on pay according to rules in the PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with the Grade Pay of

Rs. 4,800/- with effect from the date mentioned against each, on regular basis, until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of promotion to the post of Assistant Chemist Gr.-I
1.	Shri Rajendra Kumar Gupta	24.05.2012 (A/N)
2.	Shri Avijit Kumar Chatterjee	25.05.2012 (F/N)
3.	Shri Mohar Singh	24.05.2012 (A/N)

K. A. EBRAHIM KUNJU
Sr. Admin. Officer
for Dir. Genl.

No. 9540/Sp/A-32013/Sr. Geophy/2011-12/19B—On the recommendation of Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Geophysicist on promotion to the post of Senior Geophysicist in the same department in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the date mentioned against him :—

Name	Date of promotion to the post of Senior Geophysicist
Shri B. Balakrishna	09.05.2012 (F/N)

Their pay in the post of Senior Geophysicist will be fixed in accordance with the provisions under FR-22(I) (a) (1). The option for fixation of pay is to be exercised within one month from the date of issue of this Notification.

K. A. EBRAHIM KUNJU
Sr. Admin. Officer
for Dir. Genl.

No. 9336/Sp/A-32013/Sr. Geophy/2011-12/19B—On the recommendation of Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Geophysicists on promotion to the post of Senior Geophysicist in the same department in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the date mentioned against each of them as under :—

Sl. No.	Name of the officers	Date of promotion to the post of Senior Geophysicist
1.	Shri K. V. Satyanarayana	07.05.2012 (F/N)
2.	Shri S. M. Syiem	25.05.2012 (A/N)
3.	Shri D. Livingstone	28.05.2012 (F/N)

Their pay to the post of Senior Geophysicist will be fixed in accordance with the provisions under FR-22(I) (a) (1). The option for fixation of pay is to be exercised within one month from the date of issue of this Notification.

K. A. EBRAHIM KUNJU
Sr. Admin. Officer
for Dir. Genl.

The 6th February 2013

No. 952/Sp/A-32013/Chem.Stream/VR/2012-19B—Miss V. S. Snehalatha, Assistant Chemist Gr.-I, Geological Survey of India, State Unit: Kerala, GSI, Thiruvananthapuram, in the Pay Scale of PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with the Grade Pay of Rs. 4,800/-, relinquished the charge of the post of Assistant Chemist Gr.-I w.e.f. 16.06.2012 (FN) on voluntary retirement from the Government Service under Rule 48A(1) of CCS (Pension) Rules, 1972.

K. A. EBRAHIM KUNJU
Sr. Admin. Officer
for Dir. Genl.

The 7th February 2013

No. 958/Sp/A-32014(2-OS)/2005-09/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Director General, G.S.I. is pleased to approve the appointment of the following STA (Survey) in Geological Survey of India as Officer Surveyor on promotion in G.S.I. on pay according to Rules in the Scale of Pay of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,600/- in the Pay Band-2 on regular basis on pay according to rules in G.S.I. with effect from the dates as mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of promotion to the post of Officer Surveyor
1.	Shri Rami Nath	07.08.2012 (A/N)
2.	Shri M. V. S. Rama Sastry	14.08.2012 (A/N)
3.	Shri Tapan Deka	27.08.2012 (A/N)
4.	Shri N. N. V. Seshagiri Rao	29.08.2012 (F/N)
5.	Shri R. P. Kumawat	03.10.2012 (F/N)

K. A. EBRAHIM KUNJU
Sr. Admin. Officer
for Dir. Genl.

No. 959/Sp/A-32013/5-M.E. (Jr.)/2011/19B—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Assistant Mechanical Engineer Gr.-I on promotion to the post of Mechanical Engineer (Junior) in the same Department and on pay according to rules in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the date mentioned against him, on regular basis, until further orders :—

Name	Date of promotion to the post of Mechanical Engineer (Jr.)
Shri G. Samba Siva Rao	18.09.2012 (F/N)

K. A. EBRAHIM KUNJU
Sr. Admin. Officer
for Dir. Genl.

Kolkata-700016, the 1st January 2013

No. 5/Sp/A-32013/Sr. Geophy/2011-12/19B—On the recommendation of Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Geophysicists on promotion to the post of Senior Geophysicist in the same department in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the date mentioned against him :—

Sl. No.	Name	Date of promotion to the post of Senior Geophysicist
1.	Shri Sant Lal Singh	01.05.2012 (A/N)
2.	Shri B. N. Ramamurthy	01.05.2012 (A/N)

Their pay in the post of Senior Geophysicist will be fixed in accordance with the provisions under FR-22(I) (a) (1). The option for fixation of pay is to be exercised within one month from the date of issue of this Notification.

MOHD. NASEEM KHAN
Admin. Officer Gr.-II
for Dir. Genl.

Kolkata-700016, the 8th February 2013

No. 1069/Sp/A-32013/3-Suptd. Chemist/2012/19B—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Senior Chemists on promotion to the post of Superintending Chemist in the same Department and on pay according to rules in the PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the date mentioned against each, on regular basis, until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of promotion to the post of Superintending Chemist
1.	Shri K. K. Narang	21.06.2012 (AN)
2.	Shri Bablu Naskar	16.07.2012 (FN)

M. C. SAHA
Asstt. Chemist Gr.-I and
Nodal Officer (Chemistry Stream)
for Dir. Genl.

SURVEY OF INDIA

(SURVEYOR GENERAL'S OFFICE)

Dehradun-248001, the 1st February 2013

No. C-07/1800(1)—The undermentioned Draftsman Division-I (Group 'C') are promoted as Chief Draftsman, Group 'B' Post (Gazetted, Non-Ministerial) in Survey of

India on regular basis in PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,600/- with effect from the date(s) as shown against their names :—

Sl.No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri Karuna Kar Mandal	25.10.2012
2.	Shri R. S. Samyal	01.10.2012
3.	Shri Rasabihari Behera	02.01.2013
4.	Shri J. K. P. Mamgain	24.09.2012
5.	Smt. Alka Rath	25.09.2012
6.	Shri N. K. Verma (SC)	01.10.2012
7.	Smt. Pratibha Sarkar (SC)	11.01.2013
8.	Smt. G. V. Lakshmi (SC)	11.01.2013
9.	Shri Kanhaiya Lal (SC)	15.01.2013
10.	Shri N. C. Ghosh (PH)	14.01.2013

SWARNA SUBBA RAO
Surveyor Genl. of India

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 17th January 2013

No. A-19024/1/2013-A.I—On the recommendations of Departmental Promotion Committee (Group-B) and with the approval of the Competent Authority Shri Satya Prakash Sharma Gaur, is appointed as Senior Chemist in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) + Grade Pay of Rs. 4,200/- in the Directorate of Marketing & Inspection, Regional Agmark Laboratory, New Delhi with effect from 7th January, 2013 (Forenoon).

M. L. SIKKA
Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

Kolkata-700107, the 1st February 2013

No. 26(3)82-Estt.I/1635/E—Shri Samir Dutta, Assistant Director under Indian Statistical Service (ISS) has retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31.01.2013.

S. LAMA
Dy. Dir.
Head of Office

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 28th January 2013

No. PD/6(1)/2012-R-III/2013/1288—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Shashi Sridhar, Assistant, BARC, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in BARCF, Kalpakkam with effect from the forenoon of 28.12.2012 on regular basis until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 31st January 2013

No. 6(2457)/2007-Adm/1—The President is pleased to appoint the following officers presently holding the post of 'Officer-on-Special Duty' (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/-) in the Department of Atomic Energy, Mumbai as 'Under Secretary' (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay Rs. 6,600/-) in the same Department with effect from 1st January, 2013 for a period of three years :—

1. Shri S. Sriram
2. Shri K. Swaminathan
3. Shri N. V. S. V. Prasad

SWATI PANDEY
Dir. (Adm.)

Mumbai-400001, the 5th February 2013

No. 6(2284)/99/Adm/1770—The President is pleased to appoint Shri S. K. Malhotra, Scientific Officer/H (PB-4, Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/-), Head, Public Awareness Division, DAE, Mumbai, as Outstanding Scientist [HAG Scale Rs. 67,000/- (annual increment @ 3%)—79,000/-] in the same Department with effect from 20.12.2012.

N. V. S. V. PRASAD
Under Secy.

VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE

Kolkata-700064, the 1st February 2013

No. VECC/Prom(July)/2012/242—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer (H) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- in

the same Centre in an officiating capacity with effect from December 20, 2012 (FN) until further orders :—

Name	Present Post	P.B. + G.P.
Dr. Tapan Kumar Nayak	Scientific Officer (G)	Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) + Rs. 8,900/-

A. BANERJEE
Admin. Officer-III

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Indore, the 6th February 2013

No. RRCAT/Admn/Rect-708/168—The President is pleased to appoint the following Officers as Scientific Officer/C with effect from 01.08.2012 forenoon in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in an officiating capacity in the Raja Ramanna Centre for Advance Technology, Indore until further orders :—

Sl. No.	CC No.	Name
1.	1909	Shri Shoubhik Chakraborty
2.	1910	Shri Tirtha Mandal
3.	1911	Shri Chandrasekhar Ghosh
4.	1912	Shri Abhishek Chatterjee
5.	1913	Kum. Sushmita Bhartiya
6.	1914	Shri Ritu Raj Bhati
7.	1915	Shri Mukesh Kumar Pal
8.	1916	Shri Jitendra Singh
9.	1917	Kum. Pooja Patheja

B. K. JENA
Chief Admin. Officer

BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400703, the 20th December 2012

No. BRIT/9/17(3)/JULY/2012/172—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'E' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'F' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay Rs. 8,700/- in the same unit with effect from the forenoon of July 01, 2012 until further orders :—

Sl.No.	Name
1	2
1.	Shri Ganti Prabhakar
2.	Dr. Vijay Bhanu Kadwad

1	2
3.	Dr. Mathew Kudilil Mathai
4.	Shri Mukaluthundil Kunjappy Mammachan
5.	Shri Ranjeet Singh
6.	Shri Arjun Gopalakrishna

M. S. GANDLE
Chief Admin. Officer

No. BRIT/9/17(3)/JULY/2012/173—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'E' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers/Engineers Grade 'F' in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay Rs. 8,700/- in the same unit with effect from the forenoon of July 03, 2012 until further orders :—

Shri Nityananda Pal

M. S. GANDLE
Chief Admin. Officer

INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH

Kalpakkam-603102, the 22nd January 2013

No. IGCAR/A-11013/2013-R/96—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers in Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam of Department of Atomic Energy as Technical Officer/Engineer Grade 'C' on an initial pay of Rs. 21,000/- in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of the date indicated against each :—

Sl. No.	IC. No./ Section	Name	Date of Birth	Date of Joining	Basic Pay + G. P.
1.	10583 SES/ EIRSG	(S/Shri/Smt./Kum.) T. Satishkumar	05.03.90	26.11.12	Rs. 21,000/-
2.	10585 CFD/CG	J. Jagadeeshchandran	13.07.89	10.12.12	Rs. 21,000/-
3.	10586 MTD/ MDTG/ MMG	M. Arvinth Davinci	01.07.81	17.12.12	Rs. 21,000/-
4.	10595 IMS/ RMD/ ROMG	D. Gautam	21.12.89	09.01.13	Rs. 21,000/-

O. K. SATHIAN
Chief Admin. Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110003, the 6th February 2013

No. A-32013/5/2011-E.II—On the basis of the recommendation of the Union Public Service Commission and with the approval of the Appointment Committee of the Cabinet, the President is pleased to appoint Shri V. K. Arora, Deputy Director General, on his promotion to the post of Joint Director General of Civil Aviation, in the Scale of Pay of PB-4, Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 10,000/- Grade Pay, in the Office of the Director General of Civil Aviation, Headquarters, New Delhi with effect from the forenoon of 21st January, 2013.

J. MINZ
Dy. Dir. of Admin.
for Dir. Genl. of Civil Aviation

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(CENTRAL GROUND WATER BOARD)

Faridabad, the 7th February 2013

No. 3-1754/2012-Sci.Estt/982—On the recommendations of the UPSC, Shri Dineshkumar Thangavel has been appointed to the post of Assistant Chemist (Group 'B' Gazetted) in the PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- per month plus usual allowance applicable thereon in the temporary capacity w.e.f. 28.12.2012 (F/N) and posted at CGWB, CR, Nagpur.

He will be on probation for a period of two years from the date of his joining which can be extended by the Competent Authority at his discretion.

This issues with the approval of the Competent Authority.

S. R. CHAUHAN
Admin. Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

O/O REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chandigarh, the 31st January 2013

No. RoC/560(5) FTE/2012—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of following Companies has this day been struck off from the Register and the said companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1	2	3
1.	32332	M/s. Apollo Integrated Services Private Limited
2.	30454	M/s. Global Blueberries (India) Private Limited

1	2	3
3.	23470	M/s. Jain Tapodhani Shirts Private Limited
4.	26907	M/s. UV Softech Private Limited
5.	21542	M/s. Cad Medical Systems Private Limited
6.	09480	M/s. Syndicate Deposits & Advances Private Limited
7.	31202	M/s. Parmatma Hotels Private Limited
8.	27664	M/s. Dhanna Singh & Sons Foods Private Limited
9.	12842	M/s. Kalbros Drugs & Chemical Manufacturers Private Limited
10.	31149	M/s. Overseas Immigration & Printing Solutions Private Limited
11.	11587	M/s. Kalyani Financiers Private Limited
12.	29313	M/s. Britney Immigration Consultant Private Limited
13.	25796	M/s. S. T. S. Foods Private Limited
14.	34823	M/s. Wahid Sandhar Sugar (Phagwara) Limited
15.	33420	M/s. AB Edu Consultants Limited
16.	30871	M/s. Sheldon Travels Limited
17.	32504	M/s. Orchid Space Makers Private Limited
18.	33400	M/s. Vedanta Study Abroad Consultants Private Limited
19.	31480	M/s. Big Bang Coffee Houses Private Limited
20.	32508	M/s. Nimbus Organics Private Limited
21.	27780	M/s. Golden Pacific Computer Systems Private Limited
22.	30758	M/s. Amartex Integrated Textile Park Limited
23.	18384	M/s. Goldage Farms Limited
24.	32231	M/s. Impinge Solutions Limited
25.	29061	M/s. Leela Netmart Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab and Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956
and of the following Companies

Cuttack-753014, the 5th January 2013

No. RoC/Sec. 560(3)/2012—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the

date hereof, the name of the following Companies unless cause is shown to the contrary will be struck off the register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1.	15-005534	M/s. Shiva Realcon Private Limited
2.	15-008169	M/s. Nandini Software Private Limited

B. MISHRA
Registrar of Companies-cum-Official Liquidator
Odisha

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Nellore Steels Private Limited

Hyderabad-500195, the 1st February 2013

No. 560(3)MCA/RoC-Hyderabad/Sec 560/2013/00247/
ARoC(PR)/JHT/2013—Notice is hereby given pursuant to
sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956
that at the expiration of three months from the date hereof
the name of M/s. Nellore Steels Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said Company will be dissolved.

POLA RAGHUNATH
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013